



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 9, 1979/पाँच 19, 1900

No. 22]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 9, 1979/PAUSA 19, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	खंड पीठ संख्या—4
(कम्पनी कार्य विभाग)	1. श्री पी० कृष्णामूर्ति अध्यक्ष
1979 का अध्यादेश संख्या-1	2. श्री एस० राजागोपालन सदस्य
नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1979	खंड पीठ संख्या—5
(कम्पनी विधि बोर्ड)	1. श्री एस० राजागोपालन सदस्य
का० भा० 23 (अ)—कम्पनी विधि बोर्ड (खंड पीठ) नियम, 1975	2. श्री एस० एम० दुगर सदस्य
के नियम 2 (क) तथा नियम 3 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम, 1956	खंड पीठ संख्या—6
(1956 का 1) को धारा 10क की उपधारा (4ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों	1. श्री एस० राजागोपालन सदस्य
का प्रयोग करते हुए तथा इस बाबत प्रेषित अपने दिनांक, 4 जनवरी,	2. श्री ए० नीलकान्तन सदस्य
1978 के अध्यादेश संख्या 1978 के 1 का अधिलेखन करते हुए कम्पनी	खंड पीठ संख्या—7
विधि बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतद्वारा 3 जनवरी,	1. श्री पी० कृष्णामूर्ति अध्यक्ष
1979 से अपनी निम्नांकित खंड पीठों का गठन करता है:—	2. श्री एस० सी० बाफना सदस्य
खंड पीठ संख्या—1	खंड पीठ संख्या—8
1. श्री पी० कृष्णामूर्ति अध्यक्ष	1. श्री एस० एम० दुगर सदस्य
2. श्री एस० एम० दुगर सदस्य	2. श्री एस० सी० बाफना सदस्य
खंड पीठ संख्या—2	खंड पीठ संख्या—9
1. श्री पी० कृष्णामूर्ति अध्यक्ष	1. श्री एस० एम० दुगर सदस्य
2. श्री ए० नीलकान्तन सदस्य	2. श्री एस० सी० बाफना सदस्य
खंड पीठ संख्या—3	
1. श्री एस० एम० दुगर सदस्य	
2. श्री ए० नीलकान्तन सदस्य	

कम्पनी विधि बोर्ड पुनः आदेश देता है कि—

(1) खंड पीठ संख्या 1, खंड पीठ सं० 2 तथा खंड पीठ संख्या 3, कम्पनी विधि बोर्ड (खंड पीठ) नियम, 1975 के अंतर्गत, कम्पनी विधि बोर्ड के समक्ष, सम्पूर्ण देश में कार्य कर रही कम्पनियों की सभी याचिकाओं तथा आवेदन-पत्रों पर सुनवाई कर सकती हैं व उन्हें अन्तिम रूप से निपटा सकती हैं।

(2) खंड पीठ सं० 4, खंड पीठ संख्या 5 तथा खंड पीठ संख्या 6, कम्पनी विधि बोर्ड (खंड पीठ) नियम, 1975 के अंतर्गत कम्पनी विधि बोर्ड के समक्ष क्रमशः पश्चिमी तथा दक्षिणी प्रदेशों में कार्य कर रही कम्पनियों की सभी याचिकाओं तथा आवेदन पत्रों पर सुनवाई कर सकती हैं व उन्हें अन्तिम रूप से निपटा सकती हैं।

(3) खंड पीठ संख्या 7, खंड पीठ संख्या 8 तथा खंड पीठ संख्या 9, कम्पनी विधि बोर्ड (खंड पीठ) नियम, 1975 के अंतर्गत कम्पनी विधि बोर्ड के समक्ष, पूर्वी प्रदेशों में कार्य कर रही कम्पनियों की सभी याचिकाओं तथा आवेदन पत्रों पर सुनवाई कर सकती हैं व उन्हें अन्तिम रूप से निपटा सकती हैं।

(4) ये खंड पीठ आवश्यक समझे जाने वाले स्थानों पर अपनी बैठकें कर सकते हैं।

[फाइल सं० 1/2/79-सी० एल०-5]

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

ORDER NO. 1 OF 1979

New Delhi, the 8th January, 1979

(COMPANY LAW BOARD)

S.O. 23(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4B) of section 10E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), read with Rule 2(e) and Rule 3 of the Company Law Board (Branch) Rules, 1975 and in supersession of the Company Law Board's Order No. 1 of 1978, dated the 4th January, 1978, issued in this behalf, the Company Law Board, with the previous approval of the Central Government, hereby constitutes the following Benches of the Company Law Board with effect from the 3rd January, 1979, namely :—

BENCH NO. 1

- (1) Shri P. Krishnamurti—Chairman.
- (2) Shri S. M. Dugar—Member.

BENCH NO. 2

- (1) Shri P. Krishnamurti—Chairman.
- (2) Shri A. Neelakantan—Member.

BENCH NO. 3

- (1) Shri S. M. Dugar—Member.
- (2) Shri A. Neelakantan—Member.

BENCH NO. 4

- (1) Shri P. Krishnamurti—Chairman.
- (2) Shri S. Rajagopalan—Member.

BENCH NO. 5

- (1) Shri S. Rajagopalan—Member.
- (2) Shri S. M. Dugar—Member.

BENCH NO. 6

- (1) Shri S. Rajagopalan—Member.
- (2) Shri A. Neelakantan—Member.

BENCH NO. 7

- (1) Shri P. Krishnamurti—Chairman.
- (2) Shri S. C. Bafna—Member.

BENCH NO. 8

- (1) Shri S. M. Dugar—Member.
- (2) Shri S. C. Bafna—Member.

BENCH NO. 9

- (1) Shri A. Neelakantan—Member.
- (2) Shri S. C. Bafna—Member.

The Company Law Board further orders that :

- (1) Bench No. 1, Bench No. 2 and Bench No. 3 may hear and dispose of finally all petitions and applications made in respect of companies functioning throughout the country before the Company Law Board under the Company Law Board (Bench) Rules, 1975;
- (2) Bench No. 4, Bench No. 5 and Bench No. 6 may hear and dispose of finally all petitions and applications made in respect of companies functioning in the Western and Southern Regions respectively before the Company Law Board under the Company Law Board (Bench) Rules, 1975;
- (3) Bench No. 7, Bench No. 8 and Bench No. 9 may hear and dispose of finally all petitions and applications made in respect of companies functioning in the Eastern Region before the Company Law Board under the Company Law Board (Bench) Rules, 1975; and
- (4) The Benches may hold their sittings at such places as may be deemed necessary.

[File No. 2/1/79-CL. VI]

1979 का आदेश संख्या-2

का० भा० 24 (ख)—कम्पनी विधि बोर्ड (खंड पीठ) नियम, 1975 के नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए तथा इस बात से पश्चित अपने दिनांक, 4 जनवरी, 1978 के आदेश संख्या 1978 के 2 का अधिलक्षण करने हुए, कम्पनी विधि बोर्ड, एतद्वारा आदेश देता है कि जबकि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड, (18A) के लिए स्पष्टीकरण के अंतर्गत याचिकाएँ तथा धारा 17, 18 व 19 के अंतर्गत याचिकाओं, इसके दिनांक, 8 जनवरी, 1979 के आदेश संख्या 1979 के 1 के अनुसार गठित दो सदस्यीय खंड पीठों द्वारा संव्यवहारित होंगी, वहाँ निदेशनों के प्रेषणों तथा अन्तर्देशीय मामलों सहित, सभी प्रत्येक मामलों से संबंधित याचिकाओं, इन खंड पीठों के किन्हीं भी सदस्यों द्वारा, एकाकी रूप से संव्यवहारित होंगी।

[फाइल सं० 2/1/79-सी० एल०-5]

ए० नीलाकन्तन सदस्य, कम्पनी विधि बोर्ड

ORDER No. 2 of 1979

S.O. 24(E).—In exercise of the powers conferred by Rule 4 of the Company Law Board (Bench) Rules, 1975 and in supersession of the Company Law Board's Order No. 2 of 1978 dated, the 4th January, 1978 issued in this behalf, the Company Law Board hereby orders that while petitions under Explanation to clause (18A) of section 2 and petitions under sections 17, 18 and 19 of the Companies Act, 1956 shall be dealt with by the Two Member Benches of the Company Law Board constituted, vide Company Law Board Order No. 1 of 1979 dated, the 8th January, 1979, petitions in relation to all other matters including issuing of directions and inter-locutory matters shall be dealt with by any Member of these Benches sitting singly.

[File No. 2/1/79-C.L. VI]

A. NEELAKANTAN, Member,
Company Law Board